

# दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय

## गोरखपुर-273001

(नैक प्रत्यायित 'B++' श्रेणी)

सम्बद्ध

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर



☎ : 0551-2334549

☎ : 09792987700

e-mail : [dnpaggkp@gmail.com](mailto:dnpaggkp@gmail.com)

website : [www.dnpgcollege.edu.in](http://www.dnpgcollege.edu.in)

पत्रांक : / 2021-22

दिनांक : 24.12.2021

### प्रकाशनार्थ

आज दिनांक 24 दिसंबर 2021 को विज्ञान गणित संकाय, दिग्विजयनाथ पी.जी. कॉलेज गोरखपुर एवं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महानगर गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में ग्राहक दिवस के शुभ अवसर पर ग्राहक जागरूकता विषय पर एक विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य वक्ता श्री हेमनारायण पाठक जी, वरिष्ठ सदस्य, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने बोलते हुए कहा कि ग्राहक आन्दोलन भारत में स्वयंप्रेरणा से प्रारंभ हुआ। और तब शासन द्वारा उसे समर्थन मिला। ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 में ग्राहक पंचायत के संगठन ने प्रथम प्रस्तुत किया और तब बाद में शासन ने उसे स्वीकार किया। 24 दिसम्बर यह भारतीय ग्राहक दिन है। यह 1990 ग्राहक पंचायत आन्दोलन ने प्रथम घोषित किया और तत्पश्चात शासन उसमें अधिकृत रूप से सहभागी हुआ। ग्राहकों का संगठन पंजीकृत करने के लिए स्वतंत्र ग्राहक संगठन पंजीकरण अधिनियम 1991 का नया विधेयक 5 सितम्बर 1992 के दिन ग्राहक पंचायत आन्दोलन ने प्रथम लोकसभा में प्रविष्ट किया। भविष्य में शासन द्वारा यह अधिनियम बना दिया जायेगा। केंद्र शासन में ग्राहक कल्याण मंत्रालय नामक स्वतंत्र मंत्रालय हो इस दृष्टि से ग्राहक पंचायत ने उसका प्रारूप भी बनाया है। शासन उसको भी भविष्य में स्वीकार करेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि यह जो कुछ हो रहा है यही ग्राहक आन्दोलन कि स्वस्थ वृद्धि के लिए उचित है। 24 दिसम्बर के ग्राहक दिन के कारण इस आन्दोलन के विषय में सर्वत्र उत्साह है। यह आन्दोलन शक्तिशाली बने यह सभी की इच्छा है। यह उत्साह और अनुकूलता स्वागत योग्य ही है। पर इसके साथ ही ग्राहक आन्दोलन के बन्धनों और संयमों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

विशिष्ट वक्ता श्री सुमंत सिन्हाएप्रान्त सचिव, ग्राहक पंचायत ने सभी श्रोताओं को बाजार में होने वाली मिलावटों की जानकारी दी साथ यह भी बताया कि आप घर बैठे कैसे इस मिलावट की जांच कर सकते हैं और अपने आपको एवं समाज को सुरक्षित कर सकते हैं।

# दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय

## गोरखपुर-273001

(नैक प्रत्यायित 'B++' श्रेणी)

सम्बद्ध

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

☎ : 0551-2334549

☎ : 09792987700

e-mail : [dnpaggkp@gmail.com](mailto:dnpaggkp@gmail.com)

website : [www.dnpcollege.edu.in](http://www.dnpcollege.edu.in)



कार्यक्रम अध्यक्ष डॉ ओंकारनाथ तिवारी, प्रान्त संगठन मंत्री ने महानगर गोरखपुर को इस आयोजन हेतु बधाई देते हुए कहा कि ग्राहक संगठन ये कोई युनियन नहीं है। राष्ट्रोत्थान हेतु शोशणमुक्त समाज के निर्माण के लिये आर्थिक क्षेत्र में चलायी गयी एक लोकयात्रा है। विविध घटकों के बीच समन्वय स्थापित करने की आन्दोलन नीति है। व्यापारी, उत्पादक, कर्मचारी, कृषक, विक्रेता, आदि के बीच संवाद स्थापित होकर समस्याओं का निराकरण होना चाहिये। कार्यक्रम का संचालन डॉ अनुराध सिंह, सदस्य, ग्राहक पंचायत, अतिथि सहित सभी श्रोताओं के स्वागत डॉ विजय नाथ पाण्डेय, महानगर संगठन मंत्री ने किया एवं आभार ज्ञापन श्री पवन कुमार पाण्डेय, महानगर अध्यक्ष, ग्राहक पंचायत एवं प्रभारी कम्प्यूटर विज्ञान ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के शिक्षक डॉ सनजय तिवारी, श्री हरिशंकर गुप्ता, श्री संतोष कंचन एवं श्री परमहंस सिंह, प्रान्त कोषाध्यक्ष, ग्राहक पंचायत, सदस्य श्री पी.एन. दुबे, श्री पी.एन. पाण्डेय, श्री विजय चौहान, श्री एम के मिश्रा, श्री अशोक सिंह सहित विज्ञान संकाय के विद्यार्थी उपस्थित रहे।

(पवन कुमार पाण्डेय)

प्रभारी, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग